

मिलावट की नगरी बना आगरा: नकली साँस की फैक्ट्री पर पुलिस की रेड, चिली साँस में नहीं मिली चिली न टॉमेटो साँस में दिखा टमाटर

आगरा



आगरा के थाना एत्माउदौला क्षेत्र में आज नकली साँस बनाने की फैक्ट्री पर पुलिस ने रेड मारकर मालिक समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया है। सूचना पर आई खाद्य विभाग की टीम ने सैम्पलिंग कर बरामद माल को सील कर दिया है। न्यू क्लासिक वेजिटेबल शॉप्स के नाम से फैक्ट्री चलाई जा रही थी और फैक्ट्री का लाइसेंस मनोहर लाल नामक व्यक्ति के नाम पाया गया है।

रंग और एसेंस से दिया जाता था स्वाद

मौके पर आए खाद्य सुरक्षा अधिकारी को वहां भारी मात्रा में केमिकल डाल कर सड़ाई गयी सब्जियां और एसेंस व रंग मिला है। उनके अनुसार एसेंस के जरिये ग्रीन चिली और टोमेटो साँस बनाया जा रहा था। रंग मिलाकर साँस को टॉमेटो या चिली बनाया जाता था। इनके नियमित प्रयोग से लोगों को कई बड़ी बीमारियां हो सकती हैं।



नकली बन रहा था साँस

सालों से चल रही थी फैक्ट्री

एत्माउदौला थाना की रामबाग डिवीजन चौकी इंचार्ज उमर फारुख द्वारा हनुमान नगर में चल रही फैक्ट्री की सूचना पर छापा मारा गया था। इस दौरान मौके से फैक्ट्री संचालक रवि बंसल पुत्र संजय बंसल, साथी चाचा नवीन बंसल और मजदूर अरमान को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया है कि आरोपी काफी समय से घर के पास ही फैक्ट्री संचालित कर रहे थे। यहां नकली साँस बनाकर लोडिंग टेम्पो में भरकर पूरे शहर में सप्लाई किया जा रहा था।



नकली रेड चिली सॉस

छोटे रेस्टोरेंट और चाउमीन की ठेल वाले थे ग्राहक

बता दें कि नकली सॉस की ज्यादातर डिमांड सड़कों पर चाउमीन की ठेल लगाने वालों, छोटे रेस्टोरेंट और फास्टफूड कॉर्नर्स और कुछ होलसेल की दुकानों पर रहती थी। मुनाफा कमाने और कम पैसे में माल बेचने के चलते यह लोग नकली सॉस को बोतलों में भरकर ग्राहक को परोसते हैं।

हर तरह का बनता था सॉस, यह हुई बरामदगी

फैक्ट्री में पुलिस को वेजिटेबल सॉस की 41 पेटी, सोया सॉस की 10 पेटी, सिंथेटिक विनेगर की 5 पेटी, रेड चिली सॉस की 40 पेटी और ढाई सौ ग्राम रंग बरामद हुआ है। सारा सामान एसेंस से बनाया जा रहा था।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/agra/news/police-raid-on-fake-sauce-factory-chili-not-found-in-chili-sauce-tomato-not-showing-in-tomato-sauce-128924531.html>